

6. कम्पन क्वाज का भुगतान किया जाता है

- (A) परिवर्ती दर पर
- (B) समय-समय पर कंपनी द्वारा निर्धारित दर पर
- (C) पूर्व निर्धारित दर पर
- (D) कंपनी के शुद्ध लाभ पर आधारित दर पर

Debt interest is paid

- (A) at variable rate
- (B) at a rate determined by company from time to time
- (C) at a predetermined rate
- (D) at a rate based on net profit of the company

7. सुधांशु असीमित देयता, वैकल्पिक पंजीकरण, प्रबंधन अधिकार और साझेदार की मृत्यु/दिवालियापन पर विपटन के साथ एक व्यवसाय-प्रतिष्ठान (फर्म) में एक सक्रिय भागीदार है। यह किस तरह की साझेदारी है ?

- (A) स्वेच्छिक साझेदारी
- (B) विशिष्ट साझेदारी
- (C) सामान्य साझेदारी
- (D) सीमित देयता साझेदारी

Sudhanshu is an active partner in a firm with unlimited liability, optional registration, management rights and dissolution on a partner's death/insolvency. What type of partnership is this ?

- (A) Partnership at will
- (B) Particular Partnership
- (C) General Partnership
- (D) Limited Liability Partnership

8. नियंत्रण किया जाता है

- (A) माध्यमिक स्तर पर
- (B) प्रबंधन के सभी स्तरों पर
- (C) शीर्ष स्तर पर
- (D) पर्यवेक्षक स्तर पर

Controlling is performed at

- (A) Middle level
- (B) At all the levels of management
- (C) Top level
- (D) Supervisory level

9. एक कर्मचारी को रु. 10 प्रति घंटा की गारंटीकृत मजदूरी पर काम पूरा करने के लिए 60 घंटे की अनुमति है। रोवन योजना के अंतर्गत, उसे रु. 12 प्रति घंटे की मजदूरी मिलती है। समय की उसी बचत के लिए, उसे हैल्सी योजना के अंतर्गत कितनी मजदूरी मिलेगी ?

- (A) रु. 540
- (B) रु. 900
- (C) रु. 720
- (D) रु. 600

A worker is allowed 60 hours to complete the job on a guaranteed wage of Rs. 10 per hour. Under the Rowan Plan, he gets an hourly wage of Rs. 12 per hour. For the same saving in time, how much will he get under the Halsey Plan ?

- (A) Rs. 540
- (B) Rs. 900
- (C) Rs. 720
- (D) Rs. 600

10. प्रक्रिया लागत विधि में चारों का क्रम है

- a. उत्पादन की गणना करना
- b. प्रति इकाई लागत को मापना
- c. व्ययों को अभिलिखित करना
- d. प्रलंबन देयता करना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।

- (A) a, b, c, d
- (B) a, d, b, c
- (C) a, c, b, d
- (D) c, a, b, d

The sequence of steps in the process costing method is

- a. Calculate the output
- b. Measure the cost per unit
- c. Record expense
- d. Preparation of the report

Choose the most appropriate answer from the options given below.

- (A) a, b, c, d
- (B) a, d, b, c
- (C) a, c, b, d
- (D) c, a, b, d

11. आधार वर्ष को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है

- (A) चालू वर्ष
- (B) वर्तमान वर्ष और आवधिक वर्ष दोनों
- (C) संदर्भ वर्ष
- (D) आवधिक वर्ष

Base year is also known as

- (A) Current year
- (B) Both current year and periodic year
- (C) Reference year
- (D) Periodic year

12. एक अनधिमान वक्र पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर (एमआरएस) सामान्य रूप से

- (A) निरंतर बढ़ती है
- (B) सभी बिंदुओं पर अनंत हो जाती है
- (C) नियत रहती है
- (D) वक्र पर नीचे जाने (अधोगमन) पर घटती है

The Marginal Rate of Substitution (MRS) on an indifference curve is generally

- (A) Increases continuously
- (B) Becomes infinite at all points
- (C) Remains constant
- (D) Diminishes as one moves down the curve

13. प्रेश का आधारण दूसरों को यह मानने के लिए प्रेरित करता है कि वह एबीसी एसोसिएट्स का एक साझेदार है। कि वह किस प्रकार के साझेदार को निरूपित करता है।
- (A) निष्क्रिय साझेदार
(B) विबन्धन द्वारा साझेदार
(C) सक्रिय साझेदार
(D) गुप्त साझेदार

Ramesh's conduct leads others to believe he is a partner of ABC Associates. Identify the type of partner he represents.

(A) Sleeping Partner
(B) Partner by Estoppel
(C) Active Partner
(D) Secret Partner

14. ग्रामीण कृषि भूमि की बिक्री पर लाभ इस प्रकार है।
- (A) 'पूँजीगत लाभ' शीर्ष के तहत कर योग्य नहीं है, लेकिन 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के तहत कर योग्य है।
(B) कर योग्य नहीं है क्योंकि ग्रामीण कृषि भूमि को पूँजीगत संपत्ति नहीं माना जाता है।
(C) यह कर योग्य नहीं है क्योंकि यह कृषि आय है।
(D) यदि इसे अनिवार्य रूप से अधिप्राप्ति किया जाता है तो यह कर योग्य है।

Profit on sale of rural agricultural land is

- (A) Not taxable under the head 'Capital gains' but under the head 'Income from Other Sources'.
(B) Not taxable as rural agricultural land is not considered as a capital asset.
(C) Not taxable as it is agricultural income.
(D) Taxable if it is compulsorily acquired.

15. लागत लेखांकन के उद्देश्यों के सही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें।

- a. लागत की प्रतीति
b. लागत नियंत्रण
c. लागत में कमी
d. निर्णय लेना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।

- (A) a, b, c, d
(B) a, d, b, c
(C) a, c, b, d
(D) b, a, c, d

Arrange the following in the correct sequence of objectives of Cost Accounting.

- a. Ascertainment of Cost.
b. Cost Control
c. Cost Reduction
d. Decision-Making

Choose the most appropriate answer from the options given below.

- (A) a, b, c, d
(B) a, d, b, c
(C) a, c, b, d
(D) b, a, c, d

16. एक ऊँची संरचना में होता/होती है।

- (A) प्रबंधन की कोई विस्तृति नहीं
(B) प्रबंधन की व्यापक विस्तृति
(C) प्रबंधन की एक संकीर्ण विस्तृति
(D) अनौपचारिक संगठन

A tall structure has

- (A) No span of management
(B) Wide span of management
(C) A narrow span of management
(D) Informal organization

17. मांग और आपूर्ति सिद्धांत मुख्य रूप से व्यवसायों की सहायता करता है।

- (A) उपभोक्ता व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में
(B) सार्वजनिक कृण का विश्लेषण करने में
(C) कर देनदारियों का अनुमान लगाने में
(D) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को मापने में
- Demand and supply theory helps businesses mainly in
- (A) Forecasting consumer behavior
(B) Analyzing public debt
(C) Estimating tax liabilities
(D) Measuring GDP

18. सीमांत लागत की अवधारणा निकटता से संबंधित है।

- (A) स्थायी लागत से
(B) आर्थिक लागत से
(C) अवसर लागत से
(D) परिवर्ती लागत से

The concept of marginal cost is closely related with

- (A) Fixed cost
(B) Economic cost
(C) Opportunity cost
(D) Variable cost

19. निजी पूर्वाग्रह निम्नलिखित में संभव है।

- (A) यादृच्छिक प्रतिचयन
(B) सोहेय्य प्रतिचयन
(C) व्यवस्थित प्रतिचयन
(D) स्तरीकृत प्रतिचयन

Personal bias is possible under

- (A) Random sampling
(B) Purposive sampling
(C) Systematic sampling
(D) Stratified sampling



20. अनुबंध लागत निर्धारण के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (A) यह कार्य लागत निर्धारण के सदृश है
- (B) यह उपरिखर्चों की उपेक्षा करता है
- (C) इसका उपयोग मानकीकृत उत्पादों के लिए किया जाता है
- (D) यह वृहत्, अनावर्ती, दीर्घकालिक अनुबंधों से संबंधित है

Which of the following is true about Contract Costing ?

- (A) It is identical to Job Costing
- (B) It ignores overheads
- (C) It is used for standardized products
- (D) It deals with large, non-repetitive, long-term contracts

21. XYZ लिमिटेड ने 2,000 शेयरों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए एक विवरण पत्रिका जारी की। 3,000 शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 2,400 शेयरों के आवेदकों को ध्यानुपूर्व आवंटन किया गया। यदि राम को 40 शेयर आवंटित किए गए हैं, तो उसने कितने शेयरों के लिए आवेदन किया होगा ?



XYZ Ltd. issued a prospectus inviting applications for 2,000 shares. Applications were received for 3,000 shares and a pro-rata allotment was made to the applicants of 2,400 shares. If Ram has been allotted 40 shares, how many shares he must have applied for ?

- (A) 44
- (B) 48
- (C) 40
- (D) 46

22. समनुदेशित कर्तव्य को ठीक से पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ का दायित्व इस रूप में जाना जाता है

- (A) दायित्व
- (B) प्रत्यायोजन
- (C) प्राधिकार
- (D) उत्तरदायित्व

The obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty is known as

- (A) Responsibility
- (B) Delegation
- (C) Authority
- (D) Accountability

23. औद्योगिक प्रदूषण को बाज़ार की विफलता का एक रूप माना जाता है क्योंकि

- (A) इससे उपभोक्ता अधिशेष बढ़ती है

यह हरित प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहित करता है

- (C) इससे सरकारी राजस्व में कमी आती है

(D) यह बाहरी लागतें उत्पन्न करता है जो बाज़ार की कीमतों में प्रतिबिंबित नहीं होती हैं

Industrial pollution is considered a form of market failure because

- (A) It increases consumer surplus
- (B) It stimulates innovation in green technology
- (C) It reduces government revenues
- (D) It generates external costs that are not reflected in market prices



24. पूरक वस्तुओं की प्रतिलोच होती है

- (A) उच्च
- (B) अनंत
- (C) ऋणात्मक
- (D) शून्य



Cross elasticity of complementary goods is

- (A) High
- (B) Infinite
- (C) Negative
- (D) Zero

25. निम्न लागतें होती हैं

- (A) भविष्य की लागतें
- (B) निर्णय लेने के लिए अप्रासंगिक
- (C) निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक
- (D) भविष्य में उपगत होने वाली लागतें

Sunk costs are

- (A) Future costs
- (B) Not relevant for decision-making
- (C) Relevant for decision-making
- (D) Cost to be incurred in the future

26. साझेदारी फर्म में घटनाओं के सही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें।

- a. साझेदार के पूंजी लेख तैयार करना।
- b. लाभ और हानि विनियोग लेखा तैयार करना।
- c. लाभ और हानि लेख तैयार करना।
- d. तुलनेपत्र तैयार करना।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

- (A) c, b, a, d
- (B) c, b, d, a
- (C) a, b, c, d
- (D) b, a, d, c

Arrange the following in the correct sequence of events in a partnership firm.

- a. Preparation of Partner's Capital Accounts.
- b. Preparation of Profit and Loss Appropriation Account.
- c. Preparation of Profit and Loss Account.
- d. Preparation of Balance Sheet.

Choose the most appropriate answer from the options given below :

- (A) c, b, a, d
- (B) c, b, d, a
- (C) a, b, c, d
- (D) b, a, d, c



53. परिपुष्टता में सुधार के लिए कौन-सी पूर्वानुमान विधि काल श्रेणी के साथ प्रतिगमन विश्लेषण को जोड़ती है ?
 (A) घातीय सुगमिकरण
 (B) डेल्टा तकनीक
 (C) चल औसत
 (D) अर्थमितीय निदर्श
- Which forecasting method combines regression analysis with time series to improve accuracy?
 (A) Exponential smoothing
 (B) Delphi technique
 (C) Moving averages
 (D) Econometric models

54. जीएसटीआईएन के पहले 2 अंक होते हैं

- (A) विधिक इकाई का पैन
 (B) राज्य कोड
 (C) जांचयोग (चेकसम) संख्या
 (D) इकाई कोड



The first 2 digits of the GSTIN are

- (A) PAN of the legal entity
 (B) State code
 (C) Checksum number
 (D) Entity code

55. प्रति इकाई लागत निर्धारण निम्नलिखित के लिए सबसे उपयुक्त है

- (A) अस्पताल की सेवाएँ
 (B) पोत-निर्माण
 (C) निर्माण उद्योग
 (D) सीमेंट निर्माण

Unit Costing is most suitable for

- (A) Hospital services
 (B) Shipbuilding
 (C) Construction industry
 (D) Cement manufacturing

56. व्यापार और लाभ और हानि लेखे बनते समय

- (A) केवल मर्यादित लेखे व्यापार और लाभ और हानि लेखे में हस्तांतरित किये जाते हैं
 (B) केवल आम्द-खर्च लेखे व्यापार और लाभ और हानि लेखे में हस्तांतरित किये जाते हैं
 (C) केवल आम्द-खर्च लेखे को व्यापार और लाभ और हानि लेखे में हस्तांतरित किये जाते हैं
 (D) सभी आम्द-खर्च लेखे और मर्यादित लेखे व्यापार और लाभ और हानि लेखे में हस्तांतरित किये जाते हैं

While making the trading and profit and loss accounts

- (A) Only real accounts are transferred to the trading and profit and loss accounts
 (B) Only nominal accounts and opening stocks are transferred to the trading and profit and loss accounts
 (C) Only nominal accounts are transferred to the trading and profit and loss accounts
 (D) All nominal and real accounts are transferred to the trading and profit and loss accounts



57. निम्नलिखित में से कौन-सा बजट पहले तैयार किया जाना चाहिए ?

- (A) मास्टर बजट
 (B) विक्रय बजट
 (C) उत्पादन बजट
 (D) क्रय बजट



Which of the following budgets should be prepared first ?

- (A) Master Budget
 (B) Sales Budget
 (C) Production Budget
 (D) Purchase Budget

58. एक प्रबंधक कर्मचारियों के समय सीमा चूकने पर ध्यान देता है। वह स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करता है, प्रगति की निगरानी करता है और दंड लगाता है। कौन-सा कार्य लागू किया जा रहा है ?

- (A) योजना-निर्माण
 (B) कार्मिक व्यवस्थापन (स्टाफिंग)
 (C) अभिप्रेरणा
 (D) निबंधन

A manager notices employees missing deadlines. He sets clear timelines, monitors progress, and imposes penalties. Which function is being applied ?

- (A) Planning
 (B) Staffing
 (C) Motivation
 (D) Controlling

59. निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

- (A) परिसंपत्तियाँ = पूँजी - देयताएँ
 (B) परिसंपत्तियाँ = बाहरी इक्विटी
 (C) परिसंपत्तियाँ = देयताएँ - पूँजी
 (D) परिसंपत्तियाँ = देयताएँ + पूँजी

Which of the following is correct ?

- (A) Assets = Capital - Liabilities
 (B) Assets = External Equities
 (C) Assets = Liabilities - Capital
 (D) Assets = Liabilities + Capital

64 एक कंपनी विज्ञापन व्यय के आधार पर बिक्री का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रतिगमन विश्लेषण का उपयोग करती है, विज्ञापन व्यय है

- (A) स्वतंत्र चर
(B) अवशिष्ट मूल्य
(C) आश्रित चर
(D) न्यूनतम मूल्य

A company uses regression analysis to forecast sales based on advertising expenditure. Here, advertising expenditure is

- (A) Independent variable
(B) Residual value
(C) Dependent variable
(D) Minimum value

65 कोटि सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान है

- (A) +1
(B) कोई भी प्राकृतिक संख्या
(C) 0
(D) -1

The maximum value of rank correlation coefficient is

(A) +1
(B) Any natural number
(C) 0
(D) -1

66 प्रबंधन में अभिप्रेरणा अत्यावश्यक है क्योंकि यह

- (A) कर्मचारियों की लागत को कम करती है
(B) समन्वय की आवश्यकता को प्रतिबिम्बित करती है
(C) व्यक्तिगत प्रयासों को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित करती है
(D) पर्यवेक्षण की आवश्यकता को समाप्त करती है

Motivation in management is vital because it:

- (A) Reduces employee costs
(B) Replaces the need for coordination
(C) Aligns individual efforts with organizational goals
(D) Eliminates the need for supervision

67 कंपनी द्वारा शेयर निर्गमन चरणों को व्यवस्थित करें।

- a. आवंटन राशि प्राप्त होना
b. शेयरों का आवंटन
c. जनता के लिए विवरणिका/आमंत्रण जारी करना
d. मौल राशि की प्राप्ति

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें:

- (A) b, a, d, c
(B) c, a, b, d
(C) a, c, b, d
(D) d, b, a, c

Arrange the steps in the issuance of shares by a company.

- a. Application money received
b. Allotment of shares
c. Issue of Prospectus/Invitation to the public
d. Receipt of call money

Choose the most appropriate answer from the options given below:

- (A) b, a, d, c
(B) c, a, b, d
(C) a, c, b, d
(D) d, b, a, c

68 निम्नलिखित की तैयारी में स्थायी-परिवर्ती लागत वर्गीकरण का विशेष महत्व है

- (A) मास्टर बजट
(B) पूर्णतः बजट
(C) नकदी बजट
(D) लचीला बजट

The fixed-variable cost classification has a special significance in the preparation of

- (A) Master budget
(B) Capital budget
(C) Cash budget
(D) Flexible budget

69 प्रबंधकीय लेखांकन में तैयार किए गए प्रदर्शन प्रतिवेदन का उपयोग मुख्य रूप से निम्न के लिए किया जाता है

- (A) कलापान के लिए कंपनी की लाभप्रदता का आकलन करना
(B) सांविधिक लेखापरीक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना
(C) नियोजित उद्देश्यों के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना करना
(D) वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण

A performance report prepared in managerial accounting is primarily used for

- (A) Assessing the profitability of the company for taxation
(B) Meeting statutory audit requirements
(C) Comparing actual performance with planned objectives
(D) Disclosure in the annual report

70 कंपनी के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित नियमों के स्रोत के रूप में जाना जाता है

- (A) विवरण-पत्रिका
(B) मौलिक नियम
(C) सम्बद्धता का ज्ञापन
(D) सम्बद्धता की नियमावलि

The source of the rules relating to the internal management of a company is known as

- (A) Prospectus
(B) Fundamental rules
(C) Memorandum of Association
(D) Articles of Association

71 बजट में संशोधन आवश्यक होता है जब मूल बजट निम्नलिखित से तैयार किया गया हो

- (A) केवल कर्मचारियों के निर्णय के साथ
(B) केवल लेखापरीक्षा समिति की सलाह के साथ
(C) अनुपयुक्त डेटा के साथ
(D) केवल प्रबंधन निर्देश के साथ

Revision of budgets is necessary when the original budget was prepared with

- (A) Judgement of employees only
(B) Only the advice of the audit committee
(C) Inappropriate data
(D) Only management direction



100. सूची - I को सूची - II के साथ मिलाव करें।



सूची - I
(तत्व)

- विविधता डेटा के स्रोत
- पूर्वानुमान उपकरण
- सिद्धांत
- विवर्तन और उपयोग

सूची - II

(अनुप्रयोग/सिद्धांत)

- आंतरिक लागत पत्रक, उद्योग के रुझान, सरकारी सूचकांक
- प्रतिमान, क्षमता और, प्राचीन सुगमिकरण
- पूर्वानुमानों को प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और नम्यता को संतुलित करना चाहिए
- वृद्धिगत बजट बनाने, मूल्य निर्धारण करने और क्षमता योजना बनाने का समर्थन करता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

- (A) a - I b - III c - II d - IV
(B) a - III b - IV c - I d - II
(C) a - I b - II c - III d - IV
(D) a - I b - II c - IV d - III

Match List - I with List - II

List - I
(Element)

- Sources of Basic Data
- Forecasting Tools
- Principles
- Analysis and use

List - II

(Application/Principle)

- Internal cost sheets, industry trends, government indices
- Regression, moving averages, exponential smoothing
- Forecasts must balance relevance, reliability and flexibility
- Supports capital budgeting, pricing and capacity planning

Choose the most appropriate answer from the options given below :

- (A) a - I b - III c - II d - IV
(B) a - III b - IV c - I d - II
(C) a - I b - II c - III d - IV
(D) a - I b - II c - IV d - III

101. जब दो या स्थिर अनुपात में बदलते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है

- अनैच्छिक सहसंबंध
- अच्छिक या अनैच्छिक सहसंबंध
- यैच्छिक सहसंबंध
- अच्छिक सहसंबंध

When two variables change in constant proportion, it is called

- Non-linear correlation
- Partial or non-linear correlation
- Linear correlation
- Partial correlation



102. वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था

- हेनरी फेयोल द्वारा
 - एफ. डब्ल्यू. टेल्पर द्वारा
 - एल्टन मेयो द्वारा
 - लैक्स वेबर द्वारा
- The Scientific Management Theory was introduced by
- Henry Fayol
 - F W Taylor
 - Elton Mayo
 - Max Weber

103. यदि प्रत्यक्ष सामग्री की लागत ₹. 30,000, प्रत्यक्ष श्रम ₹. 20,000, और कारखाना इतराव्यय ₹. 15,000 हैं, तो कुल विनिर्माण लागत क्या है ?

- (A) ₹. 65,000.00
(B) ₹. 20,000.00
(C) ₹. 50,000.00
(D) ₹. 30,000.00



If the direct materials consumed are ₹ 30,000, direct labor is ₹ 20,000, and factory overhead is ₹ 15,000, what is the total manufacturing cost ?

- (A) Rs. 65,000.00
(B) Rs. 20,000.00
(C) Rs. 50,000.00
(D) Rs. 30,000.00

104. कर देयता से तात्पर्य है

- कर की राशि जो एक व्यक्ति कावूरी रूप से भुगतान करने के लिए बाध्य है
- विभिन्न आय श्रेणियों पर लागू कर दर
- किमी व्यक्ति द्वारा अर्जित आय की कुल राशि
- व्यक्ति को कर वापसी की देय राशि

Tax liability refers to

- The amount of tax an individual is legally obligated to pay
- The tax rate applicable to different income tiers
- The total amount of income earned by an individual
- The amount of tax refunds due to the individual

105. सामान्यतः उत्पादन बजट विधिलिखित के पदों में बताया जाता है

- मात्रा
- धन और मात्रा दोनों
- धन
- न धन और न मात्रा

Usually the production budget is stated in terms of

- Quantity
- Both money and quantity
- Money
- Neither money nor quantity



106 सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करें।



सूची - I

(दस्तावेज/प्रलेख)

- लदान-पत्र (बिल ऑफ लैडिंग)
- साख-पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट)
- उद्गम प्रमाणपत्र
- नौवहन (समुद्री) बीमा पॉलिसी

सूची - II

(उद्देश्य)

- समुद्र के माध्यम से माल की दुलाई का प्रमाण
- निर्वातक को भुगतान के लिए बैंक का आश्वासन
- उस देश को प्रमाणित करता है जहाँ माल का उत्पादन किया गया था
- शिपमेंट के दौरान समुद्री जोखिमों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें :

- (A) a - IV b - II c - III d - I
(B) a - III b - IV c - I d - II
(C) a - I b - II c - III d - IV
(D) a - I b - II c - IV d - III

Match List - I with List - II.

List - I

(Document)

- Bill of Lading
- Letter of Credit
- Certificate of Origin
- Marine Insurance Policy

List - II

(Purpose)

- Evidence of shipment of goods by sea
- Bank's assurance of payment to the exporter
- Certifies the country where the goods were produced
- Provides coverage against sea risks during shipment

Choose the most appropriate answer from the options given below :

- (A) a - IV b - II c - III d - I
(B) a - III b - IV c - I d - II
(C) a - I b - II c - III d - IV
(D) a - I b - II c - IV d - III

107 निम्नलिखित में से कौन-सा एक किसी कंपनी के लिए वित्तीय विवरण का एक घटक नहीं है ?

- (A) आय विवरण (B) तुलन-पत्र
(C) बिक्री खाता (D) नकदी प्रवाह विवरण

Which of the following is not a component of the financial statements for a company ?

- (A) Income Statement (B) Balance Sheet
(C) Sales Ledger (D) Cash Flow Statement

108 राम के पास ₹. 10,000 की परिसंपत्ति और ₹. 2,000 की देनदारियाँ हैं। उसकी पूंजी होगी

- (A) ₹. 8,000 (B) ₹. 2,000
(C) ₹. 10,000 (D) ₹. 12,000

Ram has assets of Rs. 10,000 and liabilities of Rs. 2,000. His capital will be

- (A) Rs. 8,000 (B) Rs. 2,000
(C) Rs. 10,000 (D) Rs. 12,000



जनसंख्या सिद्धांतों के कालानुक्रमिक विकास में निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें।

- जनसंख्या वृद्धि के कारण
- जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव
- माल्थस का सिद्धांत
- इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें।

- (A) b, c, d, a (B) c, a, b, d (C) a, b, c, d (D) b, a, d, c

Arrange the following stages in the chronological development of population theories.

- Causes of population growth
- Effects of population growth
- Malthusian theory
- Optimum population theory

Choose the most appropriate answer from the options given below.

- (A) b, c, d, a (B) c, a, b, d (C) a, b, c, d (D) b, a, d, c

110 कृषि-आय को कैसे परिभाषित किया जाता है ?

- (A) कृषि यंत्रों की बिक्री से प्राप्त आय
(B) केवल बागवानी और रेशम उत्पादन से आय
(C) खेतों से जुड़े किसी भी स्रोत से उत्पन्न आय
(D) कृषि उत्पादों की बिक्री और भूमि की खेती से अर्जित आय

What is defined as agricultural income ?

- (A) Income derived from the sale of agricultural machinery
(B) Income from horticulture and sericulture only
(C) Income generated from any source associated with farming
(D) Income earned from the sale of agricultural products and land cultivation

111 लागत लेखांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ?

- (A) वित्तीय लेन-देनों को दर्ज करना
(B) लागत नियंत्रण और निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाना
(C) लाभ बढ़ाना
(D) वित्तीय विवरण प्रदान करना

What is the primary objective of cost accounting ?

- (A) Record financial transactions
(B) Facilitate cost control and decision-making
(C) Maximize profits
(D) Provide financial statements



122. एक प्रबंधक से अपेक्षित विशिष्ट कार्यों वा व्यवहारों को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है

- (A) कार्य (B) भूमिकाएँ
(C) दायित्व (D) कौशल



The specific actions or behaviours expected of a manager are referred to as

- (A) Functions (B) Roles
(C) Responsibilities (D) Skills

123. एक उत्पादन कार्य व्यक्त करता है

- (A) मौद्रिक संदर्भ में निर्गत मूल्य
(B) उपभोक्ता वरीयता प्रतिरूप
(C) निवेशों और निर्गतों के बीच तकनीकी संबंध
(D) आय का कारकों के बीच वितरण

A production function expresses

- (A) Output value in monetary terms
(B) Consumer preference patterns
(C) The technical relation between inputs and outputs
(D) Distribution of income among factors

124. समायोजन प्रविष्टि क्या है ?

- (A) एक प्रविष्टि जो त्रुटि को संशोधित करती है
(B) एक प्रविष्टि जो खातों में दर्ज नहीं की जाती है
(C) खातों को अद्यतन करने के लिए की गई एक प्रविष्टि
(D) एक प्रविष्टि जो पिछले लेन-देन को रद्द करती है

What is an adjustment entry ?

- (A) An entry that corrects a mistake
(B) An entry that is not recorded in the accounts
(C) An entry made to bring accounts up to date
(D) An entry that cancels previous transactions

125. _____ के मामले में स्वामित्व का हस्तांतरण आसान है जबकि _____ के मामले में यह कठिन है ।

- (A) एकल स्वामित्व, संयुक्त स्टॉक कंपनी (B) साझेदारी, संयुक्त स्टॉक कंपनी
(C) संयुक्त-स्टॉक कंपनी, साझेदारी (D) एकल स्वामित्व, साझेदारी

Transfer of ownership is easy in the case of _____ whereas it is difficult in the case of _____

- (A) Sole proprietorship, joint stock company (B) Partnership, joint stock company
(C) Joint-stock company, partnership (D) Sole proprietorship, partnership